

# बिना सूचना दिए सड़क के किनारे मादक-पदार्थ जाँच (ड्रग टेस्टिंग)।



सुरक्षित रूप से ड्राइव करने के लिए आपके पूरे ध्यान की आवश्यकता होती है

आपके लिए आवश्यक है कि आप:



मानसिक रूप से सतर्क हों



स्पष्ट रूप से देख सकें



अपना तालमेल अच्छा रखें



## बिना सूचना दिए सड़क के किनारे मादक-पदार्थ जाँच में क्या होता है?

अवैध मादक-पदार्थों का पता लगाने के लिए थूक के नमूनों का उपयोग किया जाता है।

जिस व्यक्ति की जाँच की जा रही है, उसकी जीभ और गाल की अंदरूनी सतह से एक बड़े आकार के कॉटन बड जैसे सोखने वाले स्वेब का उपयोग करके थूक एकत्र किया जाता है।

**जाँच इनका पता लगाती है:**

मेथैम्फेटमीन (आइस, स्पीड)

कैनाबिस (वीड, पॉट)

एमडीएमए (एक्स्टेसी, मॉली, पिल्स)



## आपको क्या करने के लिए कहा जाता है?

- 1 ड्राइवरों से थूक का नमूना उपलब्ध कराने के लिए कहा जाता है।
- 2 सड़क के किनारे नमूने का विश्लेषण किया जाता है, इसमें लगभग 3 मिनट लगते हैं।
- 3 अगर किसी ड्राइवर का परिणाम पॉज़िटिव निकलता है, तो उन्हें आगे जाँच कराने के लिए कहा जाता है।
- 4 अगर इस जाँच का परिणाम भी पॉज़िटिव निकलता है, तो नमूने की पुष्टि के लिए इसे प्रयोगशाला में भेजा जाता है।
- 5 प्रयोगशाला में इस जाँच का परिणाम ड्राइवर के ऊपर आरोप लगाने का आधार होता है।

12

घंटे

कैनाबिस का उपयोग करने पर लगभग 12 घंटे बाद तक (यदि कभी-कभी उपयोग किया जाए) और प्रतिदिन उपयोग करने पर अधिकतम 30 घंटे बाद तक इसका पता लगाया जा सकता है।

48

घंटे

मेथैम्फेटमीन और एमडीएमए का उपयोग करने पर लगभग 48 घंटे बाद तक इसका पता लगाया जा सकता है।



## इन बातों को न भूलें:

- यदि आप दवाई ले रहे/रही हैं, तो अपने डॉक्टर से इस बारे में बात करें कि क्या ड्राइव करना सुरक्षित है।
- एल्कोहल या अन्य मादक-पदार्थों का उपयोग करने के बाद ड्राइव न करना ही सबसे सुरक्षित होता है।
- भले ही आपको लगे कि आप ड्राइव कर सकते/सकती हैं, किंतु आप प्रभावित हो सकते/सकती हैं और स्वयं व दूसरों के लिए एक खतरा हो सकते/सकती हैं।